



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण 1945 (श0)
(सं0 पटना 983) पटना, मंगलवार, 28 नवम्बर 2023

सं० वि०(27)-पे०को०-48/2020-1206(पें०)
वित्त विभाग

संकल्प

28 नवम्बर 2023

विषय:- वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक-01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) के तहत नियुक्त हुए हैं, एन०पी०एस० के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान करने के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 द्वारा दिनांक-01.09.2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एन०पी०एस०) लागू की गयी है ।

2. ऐसे कई मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं, जिनमें पुरानी रिक्ति/विज्ञापन के आधार पर सम्पन्न चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की नियुक्ति कई चरणों में हुई है । एक ही मेधा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की योगदान तिथि में अंतर होने के कारण कतिपय कर्म पुरानी एवं कतिपय कर्म नई पेंशन योजना से आच्छादित किये गये हैं। दिनांक-01.09.2005 के पूर्व योगदान समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को पुरानी पेंशन योजना का जबकि दिनांक-01.09.2005 के पश्चात योगदान समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को एन०पी०एस० का लाभ प्रदान किया गया है। उक्त स्थिति को कई अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती दी गयी एवं माननीय न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आने के फलस्वरूप न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सरकार द्वारा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया है।

3. पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-57/04/2019-P&PW(B) दिनांक-17.02.2020 द्वारा ऐसे कर्मियों को जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक-01.01.2004 के पूर्व सम्पन्न हो चुकी थी लेकिन नियुक्ति दिनांक-01.01.2004 के पश्चात हुई थी, को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया है ।

4. उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं भारत सरकार के प्रावधान को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक-01.09.2005

के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त हुए हैं; एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को निम्न शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया जाएगा :-

- (i) रिक्ति एवं विज्ञापन दिनांक-01.09.2005 से पूर्व का हो,
- (ii) चयन प्रक्रिया दिनांक-01.09.2005 से पूर्व सम्पन्न हो चुकी हो तथा मेधासूची से कतिपय अभ्यर्थी दिनांक-01.09.2005 से पूर्व वास्तविक योगदान समर्पित कर चुके हों एवं उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया हो,
- (iii) दिनांक-01.09.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब प्रशासनिक कारणों से अथवा न्यायिक वाद के कारण हुआ हो,
- (iv) संबंधित कर्मी अपने नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष विकल्प संबंधी आवेदन आदेश निर्गत की तिथि के छः माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अधीन मामले की समीक्षा कर वित्त विभागीय सहमति प्राप्त करते हुए आवेदन समर्पित करने की तिथि के छः माह के भीतर समुचित निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किया जाएगा ।
- (v) विकल्प का प्रयोग एक ही बार किया जाएगा एवं वह अंतिम होगा ।
- (vi) एन0पी0एस0 से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने के फलस्वरूप संबंधित कर्मी के एन0पी0एस0 फंड में संचित राशि का समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-330 दिनांक-05.04.2016 एवं 485 दिनांक-09.08.2021 के आलोक में किया जाएगा ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव(संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 983-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>